



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 आश्विन 1944 (श10)

(सं0 पटना 779) पटना, मंगलवार, 27 सितम्बर, 2022

सं0 सं0-पि0व0/3/क्षे0स्था0-20-01/2022-2046

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

संकल्प

14 सितम्बर, 2022

विषय:—पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित 12 एवं प्रस्तावित 27 कुल 39 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय हेतु विभिन्न कोटि के 1092 शैक्षणिक पद एवं 273 गैर शैक्षणिक पद अर्थात् कुल-1365 पदों के सृजन, वेतनमान तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत अनुमानित वार्षिक व्यय रू0 49,49,51,512/- (रू0 उन्चास करोड़ उन्चास लाख इक्यावन हजार पाँच सौ बारह) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या-602 दिनांक-20.03.2007 के द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का गठन किया गया है। पूर्ववर्ती कल्याण विभाग के स्वीकृत्यादेश सं0-42, दिनांक-25.02.1999 द्वारा पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों की स्थापना, शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों का सृजन तथा संधारण की स्वीकृति दी गयी है।

2-वर्तमान में 12 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय संचालित है, जिसमें वर्ग-6 से 12 तक प्रति कक्षा 40 छात्रबल के अनुसार एक-एक कक्षा का संचालन किया जा रहा है तथा आवासित छात्राओं को आवासन एवं शिक्षण की सभी सुविधाएँ निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है।

3-विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-66 दिनांक-29.12.2021 द्वारा राज्य के सभी जिलों में 520 आसनवाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय संचालित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृति के आलोक में सभी जिलों में 520 आसन की क्षमता के अनुरूप विद्यालयों का संचालन किये जाने पर कक्षा-6 से 10 तक 40 छात्रबल का एक-एक कक्षा तथा वर्ग-11 एवं 12 के लिए 40 छात्रबल के चार-चार कक्षा का संचालन किया जायेगा, जिसमें विज्ञान के लिए-2, कला के लिए-1 तथा वाणिज्य के लिए-1 कक्षा का संचालन किया जायेगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम-2009, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, शिक्षा विभाग, बिहार एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के दिशा-निर्देश के अनुरूप विद्यालयों का संचालन किये जाने हेतु नये शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के सृजन पर विचार किया गया।

4-शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों के सृजन पर विचार किये जाने के क्रम में निम्नांकित बिन्दुओं पर भी विचार किया गया:-

- शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों के सृजन के पश्चात् सभी पदों पर तत्काल नियुक्ति नहीं की जायेगी। जैसे-जैसे 520 आसन के अनुरूप आवासीय विद्यालयों की आधारभूत संरचना का विकास होता जायेगा, वैसे-वैसे आकलन कर ससमय नियुक्ति की कार्यवाई की जायेगी।
- प्रत्येक विद्यालय के लिए पूर्व से सृजित पदों के अन्तर्गत कम्प्यूटर शिक्षक को प्रारंभिक शिक्षक के अन्तर्गत माना जायेगा।
- गैर शैक्षणिक पद अंतर्गत लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद को समपरिवर्तित करते हुए विद्यालय सहायक के रूप में, बिजली मिस्त्री-सह-पम्प मिस्त्री एवं ऑपरेटर के पद की प्रासंगिकता आज के संदर्भ में नहीं रहने के कारण इस पद को प्रत्यर्पित किये जाने तथा रसोईया-सह-सेवक/रात्रि प्रहरी-सह-माली/चपरासी-सह-रात्रि प्रहरी के पद को समपरिवर्तित करते हुए विद्यालय परिचारी के रूप में सृजन पर विचार किया गया।
- प्रत्येक विद्यालय हेतु शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के नामकरण एवं वेतनमान शिक्षा विभाग के अनुरूप दिया जायेगा तथा परिवर्तन किये जाने की स्थिति में उसके अनुरूप परिवर्तित किया जायेगा।

5-अतः सम्यक विचारोपरांत निम्न स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(i) पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित 12 एवं प्रस्तावित 27 कुल 39 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय हेतु परिशिष्ट-1 के अनुरूप विभिन्न कोटि के 1092 शैक्षणिक पद एवं 273 गैर शैक्षणिक पद अर्थात् कुल-1365 पदों के सृजन तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत अनुमानित वार्षिक व्यय रु० 49,49,51,512/- (रु० उन्चास करोड़ उन्चास लाख इक्कावन हजार पाँच सौ बारह) मात्र की स्वीकृति।

(ii) परिशिष्ट-2 के अनुरूप प्रति विद्यालय विषयवार पदों की स्वीकृति तथा

(iii) परिशिष्ट-3 के अनुरूप कुल 1365 सृजित शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों का पदवार वेतनमान/नियत वेतन की स्वीकृति।

6-शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों के सृजन के फलस्वरूप व्यय का वहन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत मांग संख्या-11 के अंतर्गत बजट शीर्ष मांग संख्या 11 मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, उपमुख्य शीर्ष 03-पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 277-शिक्षा, उप शीर्ष 0010-पिछड़ी जातियों के लिए 12 (बारह) कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों का संधारण, विपत्र कोड संख्या-11.2225032770010 से किया जायेगा।

7-प्रस्ताव पर दिनांक-01.07.2022 को प्रशासी पदवर्ग समिति (कार्यवाही ज्ञापांक-6968 दिनांक-25.07.2022) की स्वीकृति प्राप्त है।

8-प्रस्ताव पर दिनांक-30.08.2022 को मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या-2 में स्वीकृति प्राप्त है।

9-संकल्प निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी एवं कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु उपलब्ध करायी जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
पंकज कुमार,
प्रधान सचिव।

परिशिष्ट-1

स्थापना एवं अन्य प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत 39 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के लिए सृजित किये जाने वाले पदों की सार-विवरणी

क्र० सं०	पद का विवरण	पूर्व से सृजित पद	आवासीय विद्यालय के लिए स्वीकृत पद	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
		शैक्षणिक पद		
1	प्रारंभिक शिक्षक (प्रशिक्षित) (कक्षा-6 से 8)	12	234	शिक्षा विभाग के अनुरूप नामकरण एवं वेतनमान अनुमान्य होगा
2	माध्यमिक शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित) (TGT)	72	312	

क्र० सं०	पद का विवरण	पूर्व से सृजित पद	आवासीय विद्यालय के लिए स्वीकृत पद	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
3	उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (PGT प्रशिक्षित)	72	507	
4	प्रधानाध्यापक / प्राचार्य	12	39	शिक्षा विभाग के अनुरूप नामकरण एवं वेतनमान अनुमान्य होगा
	कुल	168	1092	
गैर शैक्षणिक पद				
1	पुस्तकालयाध्यक्ष	0	39	शिक्षा विभाग के अनुरूप नामकरण एवं वेतनमान अनुमान्य होगा
2	विद्यालय सहायक (पूर्व से सृजित पद-लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर)	24	78	1-शिक्षा विभाग के अनुरूप नामकरण एवं देय नियत वेतन अनुमान्य होगा। 2-पूर्व से सृजित लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर का पद विद्यालय सहायक के रूप में समपरिवर्तित माने जायेंगे।
3	विद्यालय परिचारी (पूर्व से सृजित- बिजली मिस्त्री-सह-पंप मिस्त्री एवं ऑपरेटर)	12	156	1-शिक्षा विभाग के अनुरूप नामकरण एवं देय नियत वेतन अनुमान्य होगा। 2- पूर्व से सृजित सभी पद विद्यालय परिचारी के रूप में समपरिवर्तित माने जायेंगे, जिनमें से प्रत्येक विद्यालय-सह-छात्रावास के लिए चार विद्यालय परिचारी (एक रात्रि प्रहरी, एक अनुसेवक एवं दो रसोईया के रूप में) कार्य करेंगे। 3- पूर्व से सृजित 12 बिजली मिस्त्री-सह-पंप मिस्त्री एवं ऑपरेटर पद को प्रत्यर्पित किया जाता है। 4. पूर्व से सृजित 24 रसोईया-सह-सेवक एवं 12 रात्री प्रहरी-सह-माली के पद को प्रत्यर्पित किया जाता है। 5. बिजली मिस्त्री-सह-पंप मिस्त्री एवं ऑपरेटर, रसोईया-सह-सेवक, रात्री प्रहरी-सह-माली तथा चपरासी-सह-रात्री प्रहरी के पद पर कार्यरत कर्मियों की सेवानिवृत्ति/प्रोन्नति/पदत्याग/मृत्यु/सेवामुक्ति के उपरांत उक्त पद को भी प्रत्यर्पित मानते हुए वह पद विद्यालय परिचारी के पद पर नियोजन हेतु उपलब्ध होगा।
4	विद्यालय परिचारी (पूर्व से सृजित-रसोईया सह-सेवक)	48		
5	विद्यालय परिचारी (पूर्व से सृजित-रात्रि प्रहरी-सह-माली)	24		
6	विद्यालय परिचारी (पूर्व से सृजित-चपरासी-सह-रात्रि प्रहरी)	12		
7	अंशकालीन स्वीपर (विद्यालय के लिए -1 एवं छात्रावास के लिए -1)	24	शून्य	1- अंशकालीन स्वीपर का सृजित पद को प्रत्यर्पित किया जाता है तथा 2- विद्यालय-सह-छात्रावास का साफ-सफाई संबंधी कार्य भवन निर्माण विभाग के मार्गदर्शिका के अनुसार वाह्य स्रोत/आउट सोर्सिंग के माध्यम से कराई जायेगी।
	कुल	144	273	

परिशिष्ट-2

प्रत्येक विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (PGT प्रशिक्षित) के पदों की विषयवार विवरणी

क्रमांक	विषय का नाम	पदों की संख्या
1	अंग्रेजी	1
2	हिन्दी	1
3	गणित	1
4	भौतिकी शास्त्र	1
5	रसायन शास्त्र	1
6	वनस्पति विज्ञान	1
7	जीव विज्ञान	1
8	इतिहास	1
9	समाज शास्त्र	1
10	राजनीतिक शास्त्र	1
11	गृह विज्ञान	1
12	अर्थशास्त्र	1
13	लेखा	1
कुल पदों की संख्या		13

प्रत्येक विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित) (TGT) के पदों की विषय वार विवरणी :-

क्रमांक	विषय का नाम	पदों की संख्या
1	अंग्रेजी	1
2	हिन्दी	1
3	संस्कृत	1
4	विज्ञान	1
5	गणित	1
6	शारीरिक शिक्षा	1
7	संगीत / कला	1
8	कम्प्यूटर	1
कुल पदों की संख्या		8

प्रत्येक विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षक (प्रशिक्षित)
(कक्षा-6 से 8) के पदों की विवरणी :-

क्रमांक	विषय का नाम	पदों की संख्या
1	भाषा शिक्षक	2
2	गणित एवं विज्ञान शिक्षक	2
3	सामाजिक विज्ञान शिक्षक	2
कुल पदों की संख्या		6

परिशिष्ट -3

39 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के लिए सृजित किये जाने वाले शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों का पदवार वेतनमान/नियत वेतन का विवरण:-

क्र० सं०	पदनाम	कुल स्वीकृत पद (पूर्व से सृजित पद सम्मिलित)	वेतनमान एवं ग्रेड-पे	वेतन लेवल	अभ्युक्ति
	शैक्षणिक पद				
1	प्रधानाध्यापक / प्राचार्य	39	35000		शिक्षा विभाग के संकल्प सं० संख्या-1599 दिनांक-04.10.2021 के अनुरूप वेतन देय होगा
2	उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (PGT प्रशिक्षित)	507	5200-20200 ग्रेड-पे-2800	Entry Pay 8000	शिक्षा विभाग के संकल्प सं० संख्या-1632 दिनांक-21.06.2017 तथा शिक्षा विभाग के पत्रांक-1816, दिनांक-12.11.2021 के अनुसार वेतन देय होगा।
3	माध्यमिक शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित) (TGT)	312	5200-20200 ग्रेड-पे-2400	Entry Pay 7600	
4	प्रारंभिक शिक्षक (प्रशिक्षित) (कक्षा-6 से 8)	234	5200-20200 ग्रेड-पे-2000	Entry Pay 7200	
	योग-	1092			
	गैर शैक्षणिक पद				
1	पुस्तकालयाध्यक्ष	39	5200-20200 ग्रेड-पे-2400	Entry Pay 7600	शिक्षा विभाग के संकल्प सं० संख्या-1632 दिनांक-21.06.2017 तथा शिक्षा विभाग के पत्रांक-1816, दिनांक-12.11.2021 के अनुसार वेतन देय होगा।
1	विद्यालय सहायक	78	नियत वेतन 16500 (प्रति माह)		शिक्षा विभाग के पत्रांक-273, दिनांक-18.02.2021 के आलोक में नामकरण एवं वेतन देय होगा।
2	विद्यालय परिचारी	156	नियत वेतन 15200 (प्रति माह)		
3	अंशकालीन स्वीपर	शून्य			विद्यालय-सह-छात्रावास का साफ-सफाई संबंधी कार्य भवन निर्माण विभाग के मार्गदर्शिका के अनुसार बाह्य स्त्रोत/आउट सोर्सिंग के माध्यम से कराई जायेगी।
	योग	273			

पंकज कुमार,
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 779-571+1500-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>